

VIDEO: चार दुकानों में पुलिस की छापामारी, नकली ऑयल जब्त

500 रुपये का नकली ऑयल खरीदकर 1500 रुपये में खपाते थे कारोबारी, 40 बाल्टी से अधिक ऑयल बरामद, चार के खिलाफ एफआइआर दर्ज, एसपी के निर्देशन में माधवनगर पुलिस ने की कार्रवाई कटनी

Published: February 12, 2022 09:45:15 pm

कटनी. टाटा कंपनी के जांच अधिकारी की शिकायत पर माधवनगर पुलिस ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की है। थाना क्षेत्र अंतर्गत पीरबाबा में ट्रकों के श्रंगार आदि की चार दुकानों में दबिश देकर बड़ी मात्रा में नकली ऑयल जब्त किया है। 500 से 800 रुपये तक का नकली ऑयल खरीदकर 1500 रुपये में बेचते थे। पुलिस ने ऑयल को जब्त करते हुए चार के खिलाफ एफआइआर दर्ज की है। आरोपियों से पूछताछ जारी है।

जानकारी के अनुसार टाटा कंपनी के मयंक शर्मा इंदौर से कटनी पहुंचे। एसपी को जानकारी दी कि उनकी कंपनी के नाम पर प्रदूषण कम करने के लिए डीजल में ऑयल मिलाया जाता है। वह नकली बेचा जा रहा है। इस पर संयुक्त कार्रवाई की गई। दुकानदारों के यहां छापामार कार्रवाई की गई। इंजन खराब होने पर शिकायत मिली तो इसकी निगरानी की गई और छापेमारी की गई तो खुलासा हुआ। 40 से अधिक बाल्टियां पुलिस ने जब्त कर ली हैं। लगभग 1500 रुपये की एक बाल्टी बेची जा रही थी। माधवनगर पुलिस ने बताया कि टाटा कंपनी की नकली यूरिया की बाल्टी बेची जा रही थी। ट्रकों के मालिक टाटा मोटर्स में शिकायत कर रहे थे कि वाहनों में जल्दी खराबी आ रही है, जब इसकी पड़ताल की गई जो चौकाने वाला मामला सामने आया। मयंक शर्मा को इसकी निगरानी के लिए लगाया गया तो उन्होंने पाया कि मिलावटी व नकली ऑयल उनकी कंपनी के नाम का खपाया जा रहा है।



Source: <https://www.patrika.com/katni-news/fake-oil-seized-in-katni-peerbaba-7336222/>